



CIN: L15421MP2011PLC027287

GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

## Parvati Sweetners And Power Limited

Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk,  
Bhopal- 462003 (MP), Ph. No. 0755 - 4009254, Email: info@parvatisweetners.com

PSPL/SE/PC/2021-22

14<sup>th</sup> June, 2021

Online filing at [www.listing.bseindia.com](http://www.listing.bseindia.com)

To,  
The General Manager  
DCS-CRD  
BSE Ltd.  
Rotunda Building  
P.J. Tower, Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400001

**Scrip Code: 541347**

**Symbol: PARVATI**

**ISIN: INE295Z01015**

**SUB: SUBMISSION OF PRESS CLIPPING RELATED TO NOTICE OF 05/2021-22  
BOARD MEETING.**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding publishing of intimation of notice of 05/2021-22 Board Meeting of the company to be held on **Saturday, 19<sup>th</sup> June, 2021 at 3:30 P.M.** at the Registered Office of the Company at Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal - 462003 (MP).

We herewith enclosed the newspaper advertisement published on 14<sup>th</sup> June, 2021 in Business Standard English edition and Business Standard Hindi edition.


You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.

Thanking you.

Yours faithfully

**For, Parvati Sweetners And Power Limited**

For Parvati Sweetners and Power Ltd.

  
**POONAM CHOUKSEY**  
**MANAGING DIRECTOR**  
**DIN NO.:02110270**

**Encl. - a/a**



  
Director/Authorised Signatory

**PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED**  
 CINE: L15421MP2011PLC027287 | GSTIN: 23AAGCP3390D1ZW  
 Registered Office: Hall No. 2, Shopping Complex, Gomantika Parisar,  
 Jawahar Chowk, Bhopal: 462003 (MP), Ph. No.: 0755-4236666, 4009254  
 Email: info@parvatisweetners.com

**NOTICE**  
 NOTICE pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of the Company will be held on Saturday, the 19th June, 2021 at 3.30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Audited Quarterly/Yearly Financial Results for the Quarter/Year ended on 31st March, 2021, along with other routine business.  
 For further details, please refer the web link:  
<https://parvatisweetners.co.in/> & <https://www.bseindia.com/stock-share-price/parvati-sweetners-and-power-ltd/parvati541347/>  
 For Parvati Sweetners & Power Limited  
 Sd/-  
**POONAM CHOUKSEY**  
 MANAGING DIRECTOR  
 DIN: 02110270

Place: Bhopal  
 Date: 12th June, 2021

**POSSESSION NOTICE (for immovable property) Rule 8-(1)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) Bhopal Branch	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Mevati Gula Khan, and Mrs. Madenee Ban (Prospect No. 763563)	All that piece and parcel of A-113, H I G, area measuring 1150 sq. ft., 40 Floor, Lambakhele, Boreilly Road, Bhopal, Pincode: 462021, Madhya Pradesh	Rs.14,99,959/-	12-Jan-2021	09-June-2021
Mr. Sudhakar Bangle and Mrs. Jyothi Bangle (Prospect No. 776088, 779895)	All that piece and parcel of Flat No-51, admeasuring super area of 516.35 sq.ft., Plot No-225, Shagun Apartment, Ward No. 53, Trilokhanagar, Huzur Tehsil, Bhopal, MP-462043	Prospect No. 776088 Rs.23,962/- Prospect No. 779895 Rs.10,29,845/-	02-Feb-2021	09-June-2021
Mr. Suresh Kumar, Mrs. R Vijaya Raja (Prospect No. 776787)	All that piece and parcel of Plot No. E-55, admeasuring 5456 sq.mts., in Tirupati Abhinav Homes Colony, Gann Baholi, Jyothiba Bypass, Bhopal, Madhya Pradesh.	Rs.25,35,446/-	04-Dec-2020	09-June-2021
Mr. Hemant Kumar Soni and Mr. Swayanit Soni (Prospect No. 758382)	All that piece and parcel of Flat No-AP 612, admeasuring 302.79 sq. mts. Ater Palam, Janki Zoo City, Gann Baholi, P.H. No.42, Revenue Circle No.4, Vias Khond Phanda, Teh. Huzur, Bhopal, 462021, Madhya Pradesh, India	Rs.85,60,360/-	09-March-2021	09-June-2021

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office :- 249, The Infinity, First Floor, M.P Nagar Zone II, Nr. Tulsi Hotel, Bhopal-462011/Or Corporate Office :- Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.  
 Place: Bhopal Date: 14-06-2021 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

**POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) Indore BRANCH	Description of secured asset (Immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Shekhar Jaywal Mrs. Geetabai, Mr. Kalash Chandra and Guarantor Mr. Arvind (Prospect No. 836042)	All that piece and parcel of Plot No 157, admeasuring 525 sq. ft., La 48.79 q. mtrs., Shree Ranjeel Anand Dham Colony, Chota Bangarda, Dist indore, Indore, 452001, Madhya Pradesh, India	Rs. 10,42,424/-	15-Feb-21	09-June-21
Mr. Rajendra Singh Solanki, Mrs. Simran Singh Solanki, S/Swaik Enterprises through Mrs. Simran Singh Solanki and Kuber Enterprises through Rajendra Singh Solanki (Prospect No. 781349)	All that piece and parcel of House No 23-L-2-B-S-3, Admeasuring 59.41 Sq. Mtrs., Sch No 78, Aranya Nagar, Vias Nagar, Indore, 452010, Madhya Pradesh, India.	Rs. 31,12,361.00/-	24-Feb-21	09-June-21

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: 102/103, Darshan Mall, 15/2 Race Course Road, Indore-452001, Madhya Pradesh/Or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.  
 Place: Indore Dated: 14/06/2021 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

**POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) Nagpur BRANCH	Description of secured asset (Immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Prashant Manohar Wenjar and Mrs. Madhavi Prashant Wenjar (Prospect No. 914739)	All that piece and parcel of Ground Floor Flat No.007, Floor No. 0, Carpet Area- 310 sq.ft., D Building, Kh No.43, 44/2, Mouza Wehoda, Nagpur, Maharashtra, 440035, India.	4,11,968/-	23-Feb-21	09-June-21

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: 1st Floor, Naidu Chambers Beside Chawhan Traders, WTC Road Dharampatti, Nagpur-440010/Or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.  
 Place: Nagpur Dated: 14/06/2021 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

**Home First Finance Company India Private Limited**  
 CIN:U65990MH2010PTC240703,  
 Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

**APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 6 (g)]**  
**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002**

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Co-Borrower (s) as per column (ii) that the below described immovable properties as per column (iii) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Home First Finance Company India Limited for realization of its dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(12) of the said Act proposes to realize dues by sale of the said property/ies and it will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" as described hereunder. The auction will be conducted "On Line", for the recovery of amount due from Borrower (s) and Co-Borrower (s) as per column (i), due to Home First Finance Company India Limited.

Name of Customer/ Applicant/ Guarantor	Property details	Date of Notice	Total Outstanding as on date of demand notice (in Rs.)	Reserve Price (in Rs.)	EMD (in Rs.)	Date and Time of E-Auction	Last Date & Time of Submission Of EMD & Documents	Number of Authorised Officer
Rishabh Ghawariya, Lata Ghawariya	Plot No. 13, Part Of Khasra No.205, Rasalkhedi, Tehsil Huzur, Ward No. 76, Bhopal, Madhya Pradesh 462010	01-04-21	9,62,093	9,90,000	99,000	15-07-2021 (11am to 2 pm)	13-07-2021 (upto 5pm)	9039239472

**E-Auction Service Provider**

Company Name	Help Line No.	Contact Person	e-Mail id	E-Auction Website/For Details, Other terms & conditions	A/c No: for depositing EMD/other amount	Branch IFSC Code	Name of Beneficiary
e-Procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger)	079- 6813 6803	Ram Sharma -800023297	ramprasad@auctiontiger.net and support@auctiontiger.net	http://www.homefirstindia.com https://sarfaesi.auctiontiger.net	912020036268117- Home First Finance Company India Limited - Axis Bank Ltd., MIDC, Andheri East.	UTIB0000395	Authorized Officer, Home First Finance Company India Limited

**Bid Increment Amount - Rs. 10,000/-**. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal (<https://sarfaesi.auctiontiger.net>). E-Auction Tender Document containing online e-auction bid form, declaration, General Terms & Conditions of online auction sale are available at Portal Site. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on the properties. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/ rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of Home First. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Home First. The Authorized Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/conditions prescribed under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

**STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002**

The borrower/ guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned in the demand notice along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the property will be auctioned/ sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date: 14/06/2021, Place: Bhopal Sd/- Authorized Officer, Home First Finance Company India Private Limited

**BAJAJ FINANCE LIMITED**  
 CORPORATE OFFICE: 3<sup>rd</sup> FLOOR, PANCHSHIL TECH PARK, VIMAN NAGAR, PUNE-411014, MAHARASHTRA.  
 BRANCH OFFICE: 1st floor, Zantri Complex, Above IndusInd Bank Beside Hotel Rasraj, Z.P. Road, Chandrapur, Maharashtra 442401

**POSSESSION NOTICE**

U/s 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. (Appendix-IV)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of M/s BAJAJ FINANCE LIMITED (BFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice(s) to Borrower(s) / Co Borrower(s)/ Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s) / Co Borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Co Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned on behalf of M/s Bajaj Finance Limited, has taken over the possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8-(1) of the said rules. The Borrower(s) / Co Borrower(s) / Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below said property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of BFL for the amount(s) as mentioned herein under with future interest thereon.

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (LAN No, Name of Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date and Amount	Date of Possession
Branch: CHANDRAPUR (LAN No. 435LAP3972857) Borrower(s) / Co - borrower's 1. BELEY SONS ENTERPRISES At:- SITA NIWAS, RAMNAGAR, ROAD, CHANDRAPUR, 442401 2. MANOJ V KALODE (Co- Borrower) At:- NIR LOKMANYE SCHOOL SHRIRAM KRUPA APPT FLAT NO G-1, CHANDRAPUR, MAHARASHTRA-442401 3. DEEPAK DAULATRAO BELEY (Co- Borrower) At:- NEAR WASEKAR PETROL PUMP CIVIL LINE, RAMNAGAR CHANDRAPUR, MAHARASHTRA-442401	All that part and parcel of the non-agricultural properties situated at: PLOT NO. 2 FLAT NO. G1, GROUND FLOOR, SHREE RAM KRUPA, APPARTMENT MAITRI COLONY, NEAR ZILLA STADIUM, INFRONT OF LTV SCHOOL, PH NO. 10, SURVEY NO 19/3 MZ, CHANDRA, RAYATWARI, TA & DIST CHANDRAPUR, MAHARASHTRA-442401	08 March 2021 Rs. 24,35,043/- (Rupees Twenty Four Lakh Thirty Five Thousand Fourty Three Only)	08 <sup>th</sup> June 2021

Date: 14/06/2021 Place: Chandrapur Authorized Officer Bajaj Finance Limited

**IndusInd Bank**  
 C 201 2<sup>nd</sup> floor Business Square Solitaire Corporate Park Andheri East, Mumbai 400093

**PUBLIC NOTICE**  
 (Under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

**SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE U/s 13 (2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.**

Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from IndusInd Bank Limited (IBL), their loan credit facility has been classified as Non-Performing Assets in the books of the Bank as per RBI guidelines thereto. Thereafter, Bank has issued demand notices to below mentioned respective borrower under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby calling upon and demanding from them to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below, together with further interest at the contractual rate on the below mentioned amount and incidental expenses, cost, charges etc. as stated in the said demand notices. However, the service is also being done by way of this publication as per Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules)

Name and address of Borrower and Co Borrower/s	Loan Account No.	Date of NPA	Date of Demand Notice	Total Outstanding Dues (INR) as on below date	Description of the Secured Assets/Mortgaged Properties
1. M/S. BHAGWATI MOTORS THROUGH IT'S PROPRIETOR MR. ANAND SHARMA 2. MR. ANAND SHARMA PROPRIETOR OF BHAGWATI MOTORS 3. MS. NOTI SHARMA 1479 SCHEME NO. 114 PLOT NO. 1 INDORE MADHYA PRADESH 452010 ALSO AT: ROW HOUSE NO 187 SCHEME NO 78 FIRST NIRANJANUR PHASE II INDORE - 452001	1100802N & 1100528N	26/02/2021	14/05/2021	INR. 18,38,598.47/- (INR. Twenty Eight Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred Ninety Eight and Forty Seven Paise)	All that piece and parcel of Row House No.187, Scheme No. 78, Part I Niranjapur Phase -II, Indore admeasuring area 60 Sq. mtrs. which bounded as follows:- Towards North: House No.188 Towards East: House No.146 Towards West: Road Towards South: House No.186

We hereby call upon the borrower stated herein to pay us within 60 days from the date of this notice, the outstanding amount of more particularly stated in respective Demand Notices issued, together with further interest thereon plus cost, charges, expenses, etc. thereto falling which we shall be at liberty to proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules not limited to taking possession and selling the secured asset entirely at the risk of the said borrower(s)/co borrower (s)/Legal Heir(s)/Legal Representatives/that your own cost and consequences. Please note that as per section 13(13) of the SARFAESI Act, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease or otherwise, the aforesaid secured assets without prior written consent of the Bank. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal provisions as laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other legal provision in this regard. Please note that as per sub-section (8) of section 13 of the Act, if the dues of IBL together with all costs, charges and expenses incurred by IBL are tendered to IBL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by IBL, and no further step shall be taken by IBL for transfer or sale of that secured asset.

Date: 14-06-2021 Place: INDORE Sd/- For IndusInd Bank limited Authorized Officer

**tdps®**  
**TD POWER SYSTEMS LIMITED**  
 CIN: L31103KA1999PLC025071  
 Registered Office: No. 27, 28 & 29, KIADB Industrial Area, Dabaspur, Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural District, Bengaluru - 562 111. Tel. No. : + 91 80 2299 5700, 6633 7700; Fax: + 91 80 2773 4439  
 E mail: tdps@tdps.co.in, Website: www.tdps.co.in

**NOTICE**  
**(FOR ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF TD POWER SYSTEMS LIMITED)**  
**Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

The Equity Shareholders of TD Power Systems Limited (the Company) are hereby informed that in accordance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the Rules'), the shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall be transferred to the IEPF in the manner prescribed under the Rules.

The Company has also sent a letter at the latest available address to the shareholder reminding him/her to claim/cash the dividends. However, in the absence of any claim received by the Company or its Registrars & Share Transfer Agents (Link Intime India Private Limited) on or before September 17, 2021, the unpaid dividend for the year 2013-14 along with the shares shall be transferred to IEPF in compliance of the applicable Rules.

The details of the shareholder and shares held by him/her (as on June 11, 2021) which will be transferred to IEPF if the unclaimed dividends are not claimed on or before September 17, 2021, are available on the website of the Company viz., [www.tdps.co.in](http://www.tdps.co.in). It may be noted that, post transfer to IEPF, all benefits accruing on such shares, shall also be transferred to IEPF in compliance of the Rules.

The shareholder at any time after the transfer is effected can claim such dividend, shares and benefits accrued thereon from IEPF authority, after following the procedure laid down in the Rules.

To claim the above unpaid dividend before September 17, 2021 if any information/clarification is required, the shareholder may write to or contact our RTA M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel No.:(022) 49186270 email: iepf.shares@linkintime.co.in.

For TD POWER SYSTEMS LIMITED  
 Sd/-  
**N. Srivatsa**  
 Company Secretary

Place : Bangalore  
 Date : June 12, 2021

**JK Cement LTD.**  
 CIN No. : L17229UP1994PLC017199  
 Registered Office: Kamla Tower, Kanpur-208 001 (U.P.) Ph. : +91 512 2371478 to 81 ;  
 Fax: +91 512 2399854 / 2332665 ; website: www.jkcement.com ; e-mail: shambhu.singh@jkcement.com

**EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021**

Sl. No.	Particulars	CONSOLIDATED				
		Three Months Ended 31.03.2021 (Refer Note 04) (Audited)	Three Months Ended 31.12.2020 (Unaudited)	Three Months Ended 31.03.2020 (Refer Note 04) (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Period Ended 31.03.2020 (Refer Note 09) (Audited)
1.	Total Income	2,16,818.88	1,86,293.74	1,57,294.65	6,71,905.62	5,88,696.30
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	45,484.91	45,793.50	35,705.30	1,56,549.45	1,23,681.89
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	33,943.64	33,667.96	24,071.54	1,09,268.08	73,444.69
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	33,943.64	33,667.96	24,071.54	1,09,268.08	73,444.69
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	21,431.17	21,728.54	16,082.49	70,310.13	48,339.31
6.	Total Comprehensive Income for the period	21,852.15	21,386.24	17,177.67	70,359.20	50,053.65
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- per share)	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹10/-each) (Not Annualized except period / year ended) Before Extraordinary Items (in ₹ ) After Extraordinary Items (in ₹ )	27.74 27.74	28.12 28.12	20.81 20.81	90.99 90.99	62.56 62.56

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.jkcement.com](http://www.jkcement.com).
- Key Standalone Financial Information:

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				
		Three Months Ended 31.03.2021 (Refer Note 04) (Audited)	Three Months Ended 31.12.2020 (Unaudited)	Three Months Ended 31.03.2020 (Refer Note 04) (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income	2,08,651.51	1,79,040.62	1,50,447.24	6,44,163.58	5,54,965.26
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	44,975.74	45,689.43	35,231.45	1,54,174.84	1,20,113.69
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	35,532.74	35,764.39	25,849.49	1,15,941.15	83,016.21
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	18,846.24	35,764.39	8,034.49	99,254.65	65,201.21
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	6,334.40	23,827.42	22.70	60,282.58	40,037.59
6.	Total Comprehensive Income for the period	6,566.63	23,795.50	(169.93)	60,419.05	39,910.74
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- per share)	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83	7,726.83
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹10/-each) (Not Annualized except period / year ended) Before Extraordinary Items (in ₹ ) After Extraordinary Items (in ₹ )	8.20 8.20	30.84 30.84	0.03 0.03	78.02 78.02	51.82 51.82

3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries (together referred as the "Group") have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements.

For and on Behalf of the Board of Directors  
 Dr. Raghavrat Singhania  
 Managing Director  
 DIN 02426556

Place: Kanpur  
 Date: June 12, 2021

JK CEMENT  
 JK SUPER CEMENT  
 JK SUPER STRONG  
 JK SUPER STRONG BUILD SAFE  
 JK SUPER STRONG WEATHER SHIELD  
 JK CEMENT WhiteMax  
 White Portland Cement  
 JK CEMENT WallMax  
 White Cement Based Putty  
 JK CEMENT ShieldMax  
 Universal Waterproof Putty  
 JK CEMENT GypsumMax  
 Premium Gypsum Plaster  
 JK CEMENT TileMax  
 Premium Adhesive and Grout  
 JK CEMENT RepairMax  
 Masonry Compound for General Repairs  
 JK CEMENT Wood AMORE  
 Italian Wood Finishes

For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.



